

एनएसीएच (NACH) मंडेट फॉर्म

* अनिवार्य फ़ील्ड को दर्शाता है (यह नमूना प्रपत्र केवल संदर्भ के लिए है)



1 UMRN

2 दिनांक

* आज की तारीख

टिक (✓) करें 7

क्रिएट करें

बदलाव करें

रद्द करें

प्रायोजक बैंक का कोड 3

YESB00000001

यूटिलिटी कोड 4

YESB00482000010649

में/ हम एतद्वारा 5

Edelweiss Life Insurance Company Limited

को डेबिट(✓)के लिए * 6 अधिकृत करता हूँ/करते हूँ।

SB / CA / CC / SB-NRE / SB-NRO / अन्य

* 8 बैंक अकाउंट नंबर

* 9 बैंक से

ग्राहक के बैंक का नाम

ग्राहक के बैंक का नाम

* 10 IFSC

या MICR 11

* 12 रुपये की राशि

* 13 ₹

अंतराल 14

☐ मासिक ☐ तिमाही ☐ छमाही ☐ साप्ताहिक ☒ जब भी प्रस्तुत किया जाए

डेबिट का प्रकार 15

☐ निर्धारित रकम

☒ अधिकतम राशि

* 16 पॉलिसी नंबर

फोन नंबर 18

रेफरेंस नंबर 17

ई-मेल आईडी 19

मैं बैंक द्वारा मंडेट प्रोसेसिंग शुल्क के डेबिट के लिए सहमत हूँ, जिसे मैं बैंक की नवीनतम शुल्क अनुसूची के अनुसार अपने अकाउंट से डेबिट करने के लिए अधिकृत कर रहा हूँ।

20 अवधि

* कब से

Today's date

कब तक

* खाताधारक के हस्ताक्षर

21 Signature of the account holder

* केवल जॉइन्ट अकाउंट के मामले में भरा जाएगा

Signature of the account holder

Signature of the account holder

* खाताधारक का पूरा नाम

22 Name of the account holder

* केवल जॉइन्ट अकाउंट के मामले में भरा जाएगा

Name of the account holder

Name of the account holder

- यह पुष्टि की जाती है कि, मैंने/हमने सारी बातों को ध्यान से पढ़ने एवं समझने के बाद यह घोषणा की है। मैं अपने अकाउंट से डेबिट करने के लिए उपयोगकर्ता इकाई/कॉर्पोरेट को अधिकृत कर रहा हूँ।
- मैं यह समझ गया हूँ कि, मुझे उपयोगकर्ता इकाई/कॉर्पोरेट या बैंक को रद्दीकरण/संशोधन अनुरोध के बारे में उचित रूप से सूचना देकर इस मंडेट को रद्द/संशोधित करने का अधिकार है, जिसके संदर्भ में मैंने डेबिट के लिए अधिकृत किया है।

NACH/Ver6/Sept 2025



1 UMRN

2 दिनांक

टिक (✓) करें 7

क्रिएट करें

बदलाव करें

रद्द करें

प्रायोजक बैंक का कोड 3

YESB00000001

यूटिलिटी कोड 4

YESB00482000010649

में/ हम एतद्वारा 5

Edelweiss Life Insurance Company Limited

को डेबिट(✓)के लिए * 6 अधिकृत करता हूँ/करते हूँ।

SB / CA / CC / SB-NRE / SB-NRO / अन्य

* 8 बैंक अकाउंट नंबर

* 9 बैंक से

ग्राहक के बैंक का नाम

ग्राहक के बैंक का नाम

* 10 IFSC

या MICR 11

* 12 रुपये की राशि

* 13 ₹

अंतराल 14

☐ मासिक ☐ तिमाही ☐ छमाही ☐ साप्ताहिक ☒ जब भी प्रस्तुत किया जाए

डेबिट का प्रकार 15

☐ निर्धारित रकम

☒ अधिकतम राशि

* 16 पॉलिसी नंबर

फोन नंबर 18

रेफरेंस नंबर 17

ई-मेल आईडी 19

मैं बैंक द्वारा मंडेट प्रोसेसिंग शुल्क के डेबिट के लिए सहमत हूँ, जिसे मैं बैंक की नवीनतम शुल्क अनुसूची के अनुसार अपने अकाउंट से डेबिट करने के लिए अधिकृत कर रहा हूँ।

20 अवधि

* कब से

Today's date

कब तक

21 Signature of the account holder

Signature of the account holder

Signature of the account holder

22 Name of the account holder

Name of the account holder

Name of the account holder

- यह पुष्टि की जाती है कि, मैंने/हमने सारी बातों को ध्यान से पढ़ने एवं समझने के बाद यह घोषणा की है। मैं अपने अकाउंट से डेबिट करने के लिए उपयोगकर्ता इकाई/कॉर्पोरेट को अधिकृत कर रहा हूँ।
- मैं यह समझ गया हूँ कि, मुझे उपयोगकर्ता इकाई/कॉर्पोरेट या बैंक को रद्दीकरण/संशोधन अनुरोध के बारे में उचित रूप से सूचना देकर इस मंडेट को रद्द/संशोधित करने का अधिकार है, जिसके संदर्भ में मैंने डेबिट के लिए अधिकृत किया है।

NACH/Ver6/Sept 2025

पावती रसीद

द्वारा प्राप्त किया गया

पॉलिसी नंबर:

तारीख:

D D

M M

Y Y Y Y



पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय:
पंजीकरण संख्या: 147 | CIN: U66010MH2009PLC197336
एडलवाइस लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
छठी मंजिल, टॉवर 3, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070
टोल फ्री: 1800 212 1212 | फ़ैक्स नंबर: +91 22 6117 7833
Email: care@edelweisslife.in | www.edelweisslife.in

शाखा की मुहर/मोहर

घोषणा

मैं एतद्वारा ऑटोमैटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच)/डायरेक्ट डेबिट में भागीदारी के माध्यम से ऊपर बताई गई अपनी पॉलिसी का प्रीमियम डेबिट करने के लिए, डायरेक्ट डेबिट सुविधा का लाभ उठाने हेतु स्पष्ट तौर पर अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, मेरे खाते से डेबिट की जाने वाली प्रीमियम की राशि समय-समय पर लागू करों और अन्य वैधानिक शुल्कों के कारण भिन्न हो सकती है। मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि, इस पॉलिसी के संबंध में ट्रांजेक्शन नियत तारीख (बशर्ते कि वह कामकाजी दिन हो) पर किया जाएगा। अगर मेरा ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट सक्रिय है तो मैं बैंक को अपने बैंक अकाउंट से राशि तब तक डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जब तक कि मैं ACH/डायरेक्ट डेबिट को रद्द करने के लिए लिखित में अनुरोध (रद्द करने के लिए लिखित अनुरोध प्रीमियम की देय तिथि से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए) नहीं भेज दूँ। मैं एतद्वारा एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरे प्रीमियम के भुगतान के लिए /डायरेक्ट डेबिट सुविधा को सक्षम करने तथा ACH/डायरेक्ट डेबिट को अस्वीकृत किए जाने पर देय प्रीमियम की वसूली के लिए ऊपर बताए गए बैंक में मेरे अकाउंट को फिर से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। भविष्य में, अगर मैं ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड से बाहर निकलना चाहता/चाहती हूँ, तो मुझे अपना अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि, इस मोड से बाहर निकलने की स्थिति में मेरे प्रीमियम की राशि बढ़ सकती है जो पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन है। मैं समझता/समझती हूँ कि, पॉलिसी के तहत कोई भी भुगतान पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी भुगतान अंतिम रिन्यूअल प्रीमियम के भुगतान की प्राप्ति के अधीन होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, कंपनी भुगतान प्राप्त करने के किसी भी वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ध्यान दें

अगर आप अपने बैंक या बैंक अकाउंट के विवरण में बदलाव करना चाहते हैं, तो कंपनी को मौजूदा ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड NACH सबमिशन की नियत तारीख से 15 दिन पहले एक नए मंडेट की आवश्यकता होगी।

पॉलिसीधारक ध्यान दें कि उनका बैंक मंडेट प्रोसेसिंग हेतु एक बार का शुल्क ले सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसूची में बताया गया है।

पॉलिसीधारक इस बात को भी ध्यान में रखें कि, अगर किसी वजह से ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट अस्वीकृत हो जाता है, तो एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि बैंकों द्वारा नवीनतम बैंक अनुसूची के अनुसार ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं।

घोषणा

मैं एतद्वारा ऑटोमैटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच)/डायरेक्ट डेबिट में भागीदारी के माध्यम से ऊपर बताई गई अपनी पॉलिसी का प्रीमियम डेबिट करने के लिए, डायरेक्ट डेबिट सुविधा का लाभ उठाने हेतु स्पष्ट तौर पर अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, मेरे खाते से डेबिट की जाने वाली प्रीमियम की राशि समय-समय पर लागू करों और अन्य वैधानिक शुल्कों के कारण भिन्न हो सकती है। मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि, इस पॉलिसी के संबंध में ट्रांजेक्शन नियत तारीख (बशर्ते कि वह कामकाजी दिन हो) पर किया जाएगा। अगर मेरा ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट सक्रिय है तो मैं बैंक को अपने बैंक अकाउंट से राशि तब तक डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जब तक कि मैं ACH/डायरेक्ट डेबिट को रद्द करने के लिए लिखित में अनुरोध (रद्द करने के लिए लिखित अनुरोध प्रीमियम की देय तिथि से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए) नहीं भेज दूँ। मैं एतद्वारा एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरे प्रीमियम के भुगतान के लिए /डायरेक्ट डेबिट सुविधा को सक्षम करने तथा ACH/डायरेक्ट डेबिट को अस्वीकृत किए जाने पर देय प्रीमियम की वसूली के लिए ऊपर बताए गए बैंक में मेरे अकाउंट को फिर से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। भविष्य में, अगर मैं ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड से बाहर निकलना चाहता/चाहती हूँ, तो मुझे अपना अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि, इस मोड से बाहर निकलने की स्थिति में मेरे प्रीमियम की राशि बढ़ सकती है जो पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन है। मैं समझता/समझती हूँ कि, पॉलिसी के तहत कोई भी भुगतान पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी भुगतान अंतिम रिन्यूअल प्रीमियम के भुगतान की प्राप्ति के अधीन होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, कंपनी भुगतान प्राप्त करने के किसी भी वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ध्यान दें

अक्षर आप अपने बैंक या बैंक अकाउंट के विवरण में बदलाव करना चाहते हैं, तो कंपनी को मौजूदा ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड NACH सबमिशन की नियत तारीख से 15 दिन पहले एक नए मंडेट की आवश्यकता होगी।

पॉलिसीधारक ध्यान दें कि उनका बैंक मंडेट प्रोसेसिंग हेतु एक बार का शुल्क ले सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसूची में बताया गया है।

पॉलिसीधारक इस बात को भी ध्यान में रखें कि, अगर किसी वजह से ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट अस्वीकृत हो जाता है, तो एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि बैंकों द्वारा नवीनतम बैंक अनुसूची के अनुसार ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं।